



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 वैशाख 1932 (श0)  
(सं0 पटना 322) पटना, वृहस्पतिवार, 13 मई 2010

---

मत्स्य निदेशालय

कार्यालय आदेश

12 मई 2010

सं0 906—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 10 मार्च 2010 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के ज्ञापांक 1174, दिनांक 25 मार्च 2010 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रंजीत कुमार, पिता स्व0 लक्ष्मी महतो, भूतपूर्व फरास, मत्स्य निदेशालय को विभाग के अधीन वेतनमान 4440-7440 एवं ग्रेड-पे 1300 रु0 में रिक्त चतुर्थवर्गीय पदचर के पद पर बिल्कुल अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें मत्स्य निदेशालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सा से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्री पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 1919, दिनांक 20 जनवरी 1976 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा-पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा-पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 2082, दिनांक 01 अप्रील 2003 के आलोक में तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत किया जाएगा एवं नियुक्ति-पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नवनियुक्त कर्मों की सापेक्ष वरीयता चतुर्थ वर्ग संवर्ग में मानी जाएगी।

8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
निदेशक, मत्स्य।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 322-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>